

## 36950 - तश्रीक के दिन

### प्रश्न

तश्रीक के दिन कौन-कौन से हैं? और वे कौनसी विशिष्टताएं हैं जो इन्हें अन्य दिनों से उत्कृष्ट करती हैं?

### विस्तृत उत्तर

तश्रीक के दिन जुलहिज्जा के महीने का ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां दिन है। इनकी प्रतिष्ठा के बारे में कई आयते व हदीसें वर्णित हैं। जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1 – अल्लाह तआला का फरमान है :

( واذكروا الله في أيام معدودات )

“और गिने चुने कुछ दिनों में अल्लाह तआला का जिक्र करो।”

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कहना है कि “गिने चुने कुछ दिनों” से मुराद तश्रीक के दिन हैं, और अधिकतर उलमा ने इसी को चयन किया है।

2 – तश्रीक के दिनों के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है :

“ये खाने, पीने और अल्लाह सर्वशक्तिमान का जिक्र (स्मरण) करने के दिन हैं।”

तश्रीक के दिनों में अल्लाह तआला के जिक्र व गुणगान का जो आदेश है उसके अनेक प्रकार हैं :

• फर्ज़ नमाज़ों के बाद तक्बीरें कहकर अल्लाह तआला का जिक्र करना। यह कार्य उलमा की बहुमत के निटक तश्रीक के अंतिम दिन तक धर्मसंगत है।

• कुर्बानी का जानवर ज़बह करते समय बिस्मिल्लाह और तक्बीर कहकर अल्लाह तआला का जिक्र करना। कुर्बानी और हदी (यानी हज्ज की कुर्बानी) के जानवरों को ज़बह करने का समय तश्रीक के अंतिम दिन तक रहता है।

• खाने और पीने पर अल्लाह तआला का जिक्र करना। क्योंकि खाने और पीने के बारे में धर्मसंगत यह है कि उसके शुरू में बिस्मिल्लाह कहा जाए और उसके अंत पर अल्लाह की प्रशंसा की जाए। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “निःसंदेह अल्लाह तआला बन्दे से इस बात पर प्रसन्न होता है कि वह खाना खाए तो उसपर अल्लाह की प्रशंसा करे, और पानी पिए तो उसपर अल्लाह की प्रशंसा करे।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या: 2734) ने रिवायत किया है।

• तश्रीक के दिनों में जमरात को कंकरीयाँ मारते समय अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह का जिक्र करना। यह केवल हाजियों के लिए है।

• अल्लाह तआला का सामान्य रूप से जिक्र करना, क्योंकि तश्रीक के दिनों में अल्लाह तआला का अधिक से अधिक जिक्र करना मुस्तहब है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिना में अपने मंडप के अन्दर तक्बीर कहते थे, इसे सुनकर लोग भी तक्बीरें कहते थे जिसकी वजह से मिना तक्बीरों से गूँज उठता था। अल्लाह तआला का यह फरमान भी है :

﴿إِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا . فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ﴾  
﴿خَلَقَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

“फिर जब तुम हज्ज के अर्कान पूरा कर चुको तो अल्लाह तआला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी अधिक, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें नरक के अज़ाब से छुटकारा दे।” (सूरतुल बक्रा: 200-201)

बहुत से सलफ (पूर्वजों) ने तश्रीक के दिनों में अधिक से अधिक उपर्युक्त दुआ करना मुस्तहब समझा है।

इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन: (तश्रीक के दिन खाने पीने और अल्लाह तआला का जिक्र करने के दिन हैं) में यह संकेत है कि : ईद के दिनों में खाने और पीने से अल्लाह तआला की आज्ञाकारिता और उसके जिक्र पर सहायता ली जाएगी, और यह नेमतों के प्रति पूर्ण आभार प्रकट करने के अध्याय से है कि उनके द्वारा अल्लाह की आज्ञाकारिता पर मदद ली जाए।

अल्लाह ने अपनी किताब (कुरआन) में पाकीज़ा (हलाल) चीजें खाने और उसका शुक्र करने का आदेश दिया है। अतः जो मनुष्य अल्लाह की नेमतों से उसकी अवज्ञा पर मदद हासिल करे तो वास्तव में उसने अल्लाह की नेमत का उपेक्षा और कृतघ्नता किया और उसे कुफ्र में परिवर्तित कर दिया। उससे नेमतों का छिन जाना ही उचित है। जैसा कि कहा गया है :

जब तुम नेमतों से माला माल हो तो तुम उसकी रक्षा करो क्योंकि गुनाह नेमतों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह की कृतज्ञता कर नेमतों को सदा बाक़ी रखो, क्योंकि अल्लाह की कृतज्ञता उसके प्रकोप को समाप्त कर देती है।

3 - नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तश्रीक के दिनों का रोज़ा रखने से मना फरमाया है :

“इन दिनों का रोज़ा न रखो, क्योंकि ये खाने, पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं।” इसे अहमद (हदीस संख्या: 10258) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसे अस-सिलसिला अस-सहीहा (हदीस संख्या: 3573) में सही कहा है।

देखिए: इब्ने रजब की किताब “लताइफुल मआरिफ (पृष्ठ: 500)

ऐ अल्लाह हमें भले कार्यों की तौफीक दे, मृत्यु के समय हमें सुदृढ़ता प्रदान कर और ऐ बहुत ज़्यादा देने और प्रदान करनेवाले, हम पर अपनी कृपा से दया कर।

और हर प्रकार की प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए योग्य है जो सर्व संसार का पालन पोषण करने वाला है।